

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019—पौष 7, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-3-15-2016-एक-10.— राज्य शासन एतद्वारा लोकायुक्त संगठन में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के चैनल का निर्धारण बावत् अधिसूचना जिसका प्रकाशन दिनांक 26 सितम्बर 2019 के असाधारण राजपत्र में किया गया है, उक्त अधिसूचना की तालिका के सरल क्रमांक-1 पर अंकित सचिव, लोकायुक्त के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली से संबंधित प्रविष्टि को विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माधवी नागेन्द्र, उपसचिव,